

राजस्थान सरकार  
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक अक्टूबर, 2021 पर आधारित प्रेस विज्ञप्ति

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा राज्य के थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999-2000 पर प्रतिमाह जारी किये जाते हैं। राज्य का माह अक्टूबर, 2021 को सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक 379.85 रहा। राज्य के मासिक सामान्य थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक (अक्टूबर, 2020) वृद्धि दर 12.69 प्रतिशत रही है। माह अक्टूबर, 2021 में प्राथमिक वस्तु समूह सूचकांक 401.46, ईंधन, शक्ति, प्रकाश, एवं उपस्नेहक समूह सूचकांक 599.39 तथा विनिर्मित उत्पाद समूह सूचकांक 293.57 रहा है। राज्य के थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत प्राथमिक वस्तु समूह, ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह एवं विनिर्मित उत्पाद समूह सूचकांक में परिवर्तन/विचलन की स्थिति निम्नानुसार है -

**प्राथमिक वस्तु समूह (भार 33.894%):** माह अक्टूबर, 2021 में प्राथमिक वस्तु समूह का सूचकांक गत माह की तुलना में 1.96 प्रतिशत की कमी के साथ 401.46 रहा है। प्राथमिक वस्तु समूह के सूचकांक में कमी का मुख्य कारण इसके अंतर्गत कृषि उप समूह सूचकांक में 2.34 प्रतिशत कमी का होना रहा जबकि खनिज उप समूह सूचकांक में 1.07 प्रतिशत की वृद्धि रही। कृषि मद समूह में कमी अखाद्य प्रदार्थ उप समूह सूचकांक में 6.38 प्रतिशत की कमी के कारण रही जबकी खाद्य प्रदार्थ उप समूह सूचकांक में 0.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आलोच्य माह में प्राथमिक वस्तु समूह के खाद्य/अखाद्य प्रदार्थ उप समूह के अन्तर्गत अनाजों(1.55%), दालों(2.55%), मसालों(1.70%), तिलहन(10.30%) एवं अन्य अखाद्य प्रदार्थ(1.77%) कीमतों में कमी तथा फलों(12.15%), सब्जियों(44.99%), अंडा, मांस व मछली(0.50%) एवं रेशा(14.73%) की वृद्धि जबकी दूध एवं अन्य खाद्य प्रदार्थ की कीमतों में स्थिरता दर्ज की गई। खनिज उप समूह के अंतर्गत आलोच्य माह में 1.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जिसमें मुख्यतः सीसा (0.69%), चूना पत्थर (3.11%), चांदी (1.30%), स्टेआईट (सोप स्टोन) में (5.57%), जिंक (10.98%) एवं ईटों (0.94%) की कीमतों में वृद्धि जबकि जिप्सम में (10.85%) की कमी पाई गई है। प्राथमिक वस्तु समूह सूचकांक में वार्षिक आधार पर अक्टूबर, 2020 की तुलना में 16.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

**ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह (भार 16.253%):** इस समूह का सूचकांक माह अक्टूबर, 2021 में गत माह के सूचकांक 585.70 की तुलना में 2.34 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 599.39 पर रहा। समीक्षाधीन माह के दौरान सूचकांक में वृद्धि का प्रमुख कारण पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस समूह की कीमतों में (3.74%) वृद्धि होना रहा है। वार्षिक आधार पर अक्टूबर, 2020 की तुलना में ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह में 16.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

**विनिर्मित उत्पाद समूह (भार 49.853%):** विनिर्मित उत्पाद समूह का सूचकांक माह अक्टूबर, 2021 में गत माह के सूचकांक 292.37 की तुलना में 0.41 प्रतिशत बढ़कर 293.57 पर रहा। समीक्षाधीन माह के दौरान सूचकांक में वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य उत्पादों (0.72%), लकड़ी एवं लड़की उत्पाद (0.11%), केमिकल (0.28%), गैर धातु एवं खनिज उत्पाद (0.30%), बुनियादी कीमती व लौह धातु (0.95%), सामान्य प्रयोजन मशीनरी (0.24%) तथा मोटर वाहन (0.01%) की कीमतों में वृद्धि होना रहा है। वार्षिक आधार पर अक्टूबर, 2020 की तुलना में विनिर्मित उत्पाद समूह में 7.20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

थोक मूल्य सूचकांक अक्टूबर, 2021 आधार वर्ष (1999-2000=100) - तालिका

क्र.सं.	समूह / उप समूह	राजस्थान का थोक भाव सूचकांक			प्रतिशत विचलन अक्टूबर, 2021 में	
		अक्टूबर, 2021	सितम्बर, 2021	अक्टूबर, 2020	सितम्बर, 2021	अक्टूबर, 2020
1	2	3	4	5	6	7
I	प्राथमिक वस्तु समूह	401.46	409.49	343.99	-1.96	16.71
	(अ) - कृषि वस्तुओं के उप समूह	402.57	412.22	342.15	-2.34	17.66
	(ब) - खनिज उप समूह	393.07	388.91	357.88	1.07	9.83
II	ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह	599.39	585.70	516.60	2.34	16.03
III	विनिर्मित उत्पाद समूह	293.57	292.37	273.86	0.41	7.20
	सामान्य सूचकांक	379.85	379.74	337.08	0.03	12.69

-Sd-

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,  
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राज. जयपुर।